



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 1984/ज्येष्ठ 25, 1906

No. 210]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 1984/JYAISTHA 25, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

प्रविसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 1984

सं० 145/84—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 450(ए) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन)
घाठका नियम 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्
उक्त नियम कहा गया है) नियम 70 में, “या बुकलेटों में रखा जाएगा
और उन पर सब” शब्दों के पश्चात्, “इन नियमों जैसे अन्यथा उपबन्धित
है उसके सिवाय,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 71 के उपनियम (I) में, “भारत के बाहर
निर्यात के लिए प्राणयित वियासलाईयों से” शब्दों के पश्चात् “और ऐसी

वियासलाईयों से जिनको नियम 64 के दूसरे परन्तुक के उपबन्ध लागू होते
हैं” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 231 में, “यदि कोई वियासलाईयों” शब्दों
के स्थान पर “इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, यदि
कोई वियासलाईयों” शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 261/38/4/84—के०उ०शु०-8]

मिजय कुमार पुरी, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 1984

No. 145/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 450(E).—In exercise of the powers
conferred by section 37 of the Central Excises and
Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Govern-

ment hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excises (8th Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In rule 70 of the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said rules), after the words "booklets which shall then", the words "save as otherwise provided by these rules," shall be inserted.

3. In sub-rule (1) of rule 71 of the said rules, after the words "other than those intended for export out of India", the words "and those to which the provisions of the second proviso to rule 64 apply" shall be inserted.

4. In rule 231 of the said rules, for the words "If any matches", the words "save as otherwise provided by these rules, if any matches" shall be substituted.

[F. No. 261/38/4/84-CX.8]
V. K. PURI, Under Secy.